



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. ०५]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2001/माघ 20, 1922

No. 55]

NEW DELHI, FRIDAY, 9 FEBRUARY 9, 2001/MAGHA 20, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ५ फरवरी, 2001

संख्या 1/2001-आई ए टी टी

सा. का. नि. 88(अ).—वित्त अधिनियम, 1989 (1989 का 13) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि भूकंप की वजह से विशेष परिस्थिति को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक तथा अनिवार्य है, एतद्वारा देश के किसी भाग से गुजरात राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने अथवा उक्त राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र से देश के किसी भाग में जाने के लिए एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस द्वारा निर्गत निःशुल्क टिकट पर वायु मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के तहत प्रभारणीय अन्तरदेशीय वायु यात्रा करके भूगतान से छूट प्रदान करती है।

2 यह अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2001 की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 306/1/2001-वि.या.क.]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2001

No. 1/2001-IATT

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Finance Act, 1989 (13 of 1989), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do having regard to the special circumstances due to earthquake, hereby exempts the passengers travelling by air on free tickets issued by Air India or Indian Airlines or any other Airlines from any part of the country to the earthquake affected area of the State of Gujarat or from earthquake affected area of that State to any other part of the country, from payment of inland air travel tax leviable under sub-section (1) of section 42 of the said Act.

2 This notification shall remain in force till midnight of 28th February, 2001.

[F. No. 306/1/2001-FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy

